



मुम्बई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सोनम कपूर और दीपिका पादुकोण

## हरमोहिंदरपाल सिंह सहोता सलोह के डिप्टी मेयर बने



सलोह की नवनिर्वाचित मेयर इशरत शाह, डिप्टी मेयर हरमोहिंदरपाल सिंह सहोता के साथ (बाएँ) पल्लवी सहोता व (दाएँ) मरियम शाह। (छाया : मनप्रीत सिंह बख्खनी कलां)

लंदन, 20 मई (मनप्रीत सिंह बख्खनी कलां) : पंजाब के शहर फरीदकोट में जन्मे हरमोहिंदरपाल सिंह सहोता को सलोह कांसिल का डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद आए मेहमानों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सियासत में लोगों द्वारा उन्हें हमेशा सहयोग मिला है।

सहोता 1976 से यूके में रह रहे हैं, वह पहली बार 1989 में बकशायर काउंटी के पार्षद बने थे जोकि 1999 तक रहे। 2010 में वह सलोह कांसिल के लिये पार्षद चुने गये और अब उन्हें डिप्टी मेयर की सेवाएँ सौंपी गई हैं, जबकि उनकी बहु पल्लवी सोहल को डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। सहोता

2001 से जे.पी. (जस्टिस आफ पीस) के रूप में काम कर रहे हैं। इस अवसर पर आज़ाद कश्मीर की पार्षद इशरत शाह को मेयर व मरियम शाह को मेयरस नियुक्त किया गया है। इशरत ने कहा कि वह 13 साल पहले वेल्ज़ से सलोह अकेली दो बच्चों के साथ यहां आई थी, उसने अपने बचपन का सपना साकार करने के लिये बड़ी जद्दोजहद की है। उल्लेखनीय है कि सलोह क्षेत्र में एशियन लोगों की बड़ी आबादी है। इस अवसर पर लेबर पार्टी के उम्मीदवार तनमनजीत सिंह देसी, पूर्व मेयर व श्री गुरु सिंह सभा सलोह के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बल, कांसिल लीडर सुहेल मुनवर, पार्षद राजेंद्र सिंह खालड़ा, पार्षद अवतार कौर चीमा, पार्षद माधुरी, नवदीप राणा, महिंदरपाल सिंह धालीवाल, तरलीक सिंह बाल आदि मौजूद थे।



कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोटोशूट के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन।

## जर्मनी की संसद में राजनीतिक शरण प्राप्त करने वालों के लिये कड़ा कानून पारित

फ्रैंकफर्ट, 20 मई (संदीप कौर मियाणी): जर्मनी की संसद में देश निकाले को और आसान बनाने के लिये राजनीतिक शरण प्राप्त करने वालों के लिये कड़े कानून पास किये गये हैं। कानून के अधीन शरण प्राप्त करने वाले जिनका आवेदन रद्द किया जाता है और इसके बावजूद जो अपनी मर्जी से देश छोड़ने को तैयार नहीं होते और वह लोग जो गलत पहचान बताकर राजनीतिक शरण के लिये आवेदन देते हैं, उनका आवेदन रद्द होने के बाद वह अधिक से अधिक 4 से 10 दिन तक जर्मनी में रह सकेंगे। वह जिन्हें सम्भावित खतरनाक माना जायेगा और जिन्हें देश निकाला के आदेश जारी किये होंगे, उन लोगों की नज़रबंदी के लिये पैरों में इलेक्ट्रॉनिक कंकाल डाल दिये जायेंगे। कानून में सख्ती बर्तन में हुए आतंकी हमले के कारण की गई है, जिसमें अनीस असरी की शरण का आवेदन रद्द कर दिया गया था परंतु उसके आरोप टूटेशिया से दस्तावेजों की कार्रवाई में देर होने के कारण उसका समय बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह घटना हुई थी। ऐसी घटनाओं के कारण जर्मनी की सरकार सतर्क हो गई है। इसी पारित किये कानून के तहत सबसे ज्यादा विवादपूर्ण कानून प्रवासियों व शरण मांगने वालों के लिये फेडरल कार्यालय (बीएमएफ) को पनाह मांगने वालों के सैलफोन डाटा का विश्लेषण करने संबंधी अधिकार मिलना। जिनके पास पहचान पत्र नहीं हैं या वह शरण प्राप्ति के लिये झूठ बोलते हैं तो उनका सैलफोन डाटा अधिकारियों को कार्रवाई में मदद करेगा।




महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के मेनी गांव में खेत की जुताई करते हुए पुरुष व महिलाएं।



सेंट मार्क्स चर्च इंग्लेफील्ड (इंग्लैंड) से शादी के बाद बाहर आते हुए पीपा मिल्डटन और जैम्स मैथ्यूज़।

## बॉक्स ऑफिस की चिंता नहीं करते हैं सुशांत

मुंबई, 20 मई (वार्ता) : बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कहना है कि वह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की चिंता नहीं करते हैं। सुशांत की पिछली फिल्म एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। सुशांत ने कहा है कि वह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई की चिंता नहीं करते बल्कि अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करने की कोशिश करते हैं। सुशांत को फिल्म 'राब्ता' अगले महीने रिलीज़ हो रही है।



अली खान और उनकी पत्नी को निकाह पर आशीर्वाद देने पहुंचे अभिनेता अमिताभ बच्चन।

## शिल्पा और राज कुंद्रा पर लगा शिकायतकर्ता को धमकाने का आरोप

मुम्बई, 20 मई (एजेंसी) : शिल्पा शेटी और उनके पति राज कुंद्रा ठाणे की एक अदालत में एक निर्यात कम्पनी के मालिक के साथ 24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी शिल्पा, राज कुंद्रा और तीन अन्य को शपथ पत्र देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि ये सभी लोग शपथ पत्र में लिख कर दें कि वे निर्यात कम्पनी के मालिक को धमकाए नहीं। दरअसल निर्यात कम्पनी के मालिक रवि भलोडिया ने आरोप लगाया कि कुंद्रा ने उन्हें अदालत कक्ष के अंदर धमकाया है जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संगीता खालिपे ने पांचों से शपथ पत्र देने को कहा है। भलोडिया ने शिल्पा, कुंद्रा और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी एवं विश्वासघात के मामलों में शिकायतकर्ता हैं।



## रैम्बो का रीमेक सही ढंग से पेश होगा: सिल्वेस्टर

लॉस एंजेलिस, 20 मई (वार्ता) : हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टेल्न को उम्मीद है कि सुपरहिट हॉलीवुड फिल्म 'रैम्बो' की हिंदी रीमेक में फिल्म के किरदार रैम्बो को सही तरीके से दर्शाया जाएगा। रैम्बो की सीरीज में काम कर चुके स्टेल्न ने फोटो शेयरिंग साइट इंस्टाग्राम पर 'रैम्बो' का एक पोस्टर साझा किया, जो डेविड निरेंशन सिद्धार्थ आनंद करेगे।



मोरिल के उपन्यास 'फर्स्ट ब्लड' पर आधारित फिल्म श्रृंखला है। स्टेल्न ने इसके कैप्शन में लिखा, 'मैंने हाल में पढ़ा कि वे भारत में 'रैम्बो' की रीमेक बना रहे हैं। शानदार किरदार। उम्मीद करता हूं वे किरदार को सही तरीके से पेश करेंगे। चर्चा है कि रैम्बो के हिंदी रीमेक में टाइगर श्रॉफ मुख्य किरदार निभायेंगे, जबकि इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद करेंगे।

## किम कार्दशियान के इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ प्रशंसक

लॉस एंजेलिस, 20 मई (एजेंसी) : रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियान के सोशल साइट इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फोलोअर्स हो गए हैं। वह छठी ऐसी हस्ती हैं जिनके इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। इससे पहले गायिका सेलेना गोमेज़, एरियाना ग्रैंड, टेलर स्विफ्ट और ब्रियंसे भी इस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। किम के इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों की संख्या गुरुवार को 10 करोड़ हो गई थी और इसके लिए किम ने अपने प्रशंसकों का आभार जताया। किम ने कहा, "यकीन नहीं होता कि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 करोड़ फोलोअर्स हो गए हैं।"

## अपने जीवन पर किताब लिखेगी मनीषा कोइराला



मुंबई 20 मई (वार्ता) : बॉलीवुड की इलू इलू गर्ल मनीषा कोइराला अपने जीवन पर किताब लिखने जा रही हैं। मनीषा इन दिनों अपनी अगामी 7वीं फिल्मों में व्यस्त हैं जिसमें से एक संजय दत्त की बायोपिक है और दूसरी फिल्म का नाम 'डियर माया' है। 'डियर माया' से मनीषा लंबे समय बाद वापसी कर रही हैं। इसके अलावा जल्द मनीषा अपनी अपनी जिंदगी पर आधारित किताब लिखने की तैयारी में हैं। मनीषा ने कहा, 'मैं कैंसर और इस बीमारी से बचने के उपाय, एक किताब में लिखने वाली हूँ। मनीषा ने बताया कि वह आत्मकथा भी लिखना चाहती है लेकिन अभी उन्हें लगता है कि इसमें थोड़ा समय लेना चाहिए। जल्दबाजी में आत्मकथा नहीं लिखना चाहती। मनीषा फिल्म 'डियर माया' के प्रमोशन को लेकर व्यस्त है। इस फिल्म में मनीषा कोइराला एक ऐसी महिला की भूमिका में हैं, जो पिछले 20 सालों से अपने घर से नहीं निकली है।

## 'कमांडो 3' शानदार एक्शन से भरपूर : विद्युत



नई दिल्ली, 20 मई (एजेंसी) : अभिनेता विद्युत जामवाल ने बताया कि 'कमांडो' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म शानदार एक्शन से भरपूर है और उन्होंने पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभिनेता ने कहा कि फिल्म की पटकथा पर काम चल रहा है। विद्युत ने कहा, "आप निश्चित रूप से कुछ शानदार एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। वे अभी पटकथा (तीसरा भाग) लिख रहे हैं। मेरे पास पटकथा या अन्य चीज के लिए ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं कोरियोग्राफी पर काम कर रहा हूँ।" 'कमांडो' श्रृंखला वर्ष 2011 में 'कमांडो : ए वन मैन आर्मी' के साथ शुरू हुई जबकि इस श्रृंखला की दूसरी फिल्म 'कमांडो 2 : द ब्लोक मनी ट्रेल' है।



बांद्रा में स्पॉट हुई यामी गौतम और (नीचे) हुमा कुरेशी।

रजिन्दर सिंह—सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक ने साधु सिंह हमदर्द ट्रस्ट के लिए डेली अजीत प्रिंटिंग डी-219, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-8बी, सैक्टर 74, मोहाली से छपा कर, एस.सी.ओ.12, सैक्टर 21-सी, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया। RNI Regd. No.: CHAHIN/2015/59797



मुम्बई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सुजैन खान, शाहरुख खान और कालीना एयरपोर्ट पर नीता अम्बानी अपने पुत्र अनंत अम्बानी के साथ।

